

प्रेस नोट

दिनांक 11.09.2021

सराहनीय कार्य थाना कमरौली पुलिस

थाना कमरौली पुलिस द्वारा चोरी के 13 मोबाइल फोन के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2021 को थानाध्यक्ष शिवाकान्त पाण्डेय थाना कमरौली मय हमराह द्वारा तलाश वांछित देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1.मो0 शादाब पुत्र मो0 वसीम नि0 ग्राम मलाहन का पुरवा मजरे बनभरिया थाना कमरौली जनपद अमेठी 2. अली खान पुत्र आरिफ खान नि0 म0न0 सी 73 यूपीएसआईडीसी कालोनी थाना कमरौली जनपद अमेठी को संजय गांधी पॉलीटेक्निक गेट के पास से समय करीब 06:15 बजे प्रातः में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के कुल 13 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए । अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन के बारे में पूछने पर बताया कि हम दोनों लोग और मेरे साथी कुलदीप सरोज पुत्र नागेश्वर सरोज नि0 डी 118 यूपीएसआईडीसी कालोनी जनपद अमेठी, अलकमा पुत्र फुरकान व नसीम पुत्र मुस्तकीम निवासीगण ग्राम बतिया थाना शिवरतनगंज ने मिलकर लगभग 20-25 दिन पहले हादी मार्क रोड़ न0 01 व कठौरा से मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर चोरी किये थे । कुलदीप सरोज, अलकमा व नसीम घटना के बाद अपना सामान लेकर कहीं बाहर चले गये है । थाना कमरौली द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मो0 शादाब पुत्र मो0 वसीम नि0 ग्राम मलाहन का पुरवा मजरे बनभरिया थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
2. अली खान पुत्र आरिफ खान नि0 म0न0 सी 73 यूपीएसडीसी कालोनी थाना कमरौली जनपद अमेठी ।

बरामदगी-

1. चोरी के 13 अदद मोबाइल फोन ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0स0 171/21 धारा 380,411 भादवि थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0स0 180/21 धारा 380,411 भादवि थाना कमरौली जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवाकान्त पाण्डेय थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 प्रदीप यादव थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 राम बचन राम थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
4. उ0नि0 रमेश चन्द्र थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
5. हे0का0 अजय सोनकर थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
6. हे0का0 अरुण तिवारी थाना कमरौली जनपद अमेठी ।
7. का0 रुपेश यादव थाना कमरौली जनपद अमेठी ।